

## डायर वुल्फ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिका-स्थिति बायो-टेक्नोलॉजी कंपनी (कोलोसल बायोसाइंसेज) ने दावा किया है कि उसने आनुवंशिक रूप से ऐसे भेड़िये के शावकों (रोमुलस, रेमुस और खलीसी) को तैयार किया है, जिनमें लंबे समय से विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ (एनोसायन डायरस) के गुण मौजूद हैं।

### आनुवंशिक रूप से तैयार किये गए भेड़िये के शावक:

- वैज्ञानिकों ने 13,000 से 72,000 वर्ष पुराने डायर वुल्फ जीवाश्मों से प्राप्त प्राचीन **DNA** का उपयोग कर सफेद कोट और मोटे फर जैसे गुणों की पहचान की।
- डायर वुल्फ के जीनोम की तुलना आधुनिक **कैनडाए** (जैसे भेड़िया, सियार, लोमड़ी) से करने पर उन्हें ग्रे वुल्फ के साथ 99.5% DNA समानता मिली।
- **CRISPR** तकनीक का उपयोग करते हुए उन्होंने ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं में 20 जीन स्थलों को संपादित किया, इन्हें पालतू कुत्तों की अंडाणु कोशिकाओं से मिलाया और भ्रूणों को कुत्तों के गर्भाशयों में प्रत्यारोपित किया।
  - 8 प्रत्यारोपणों में से 3 आनुवंशिक रूप से परिवर्तित शावकों का जन्म 62 दिनों की गर्भावस्था के बाद हुआ।
- विलुप्त हो चुके ग्रे वुल्फ से भिन्नता:
  - जीन-संपादित शावक विलुप्त डायर वुल्फ के सटीक आनुवंशिक प्रतारूप नहीं हैं। ग्रे वुल्फ से 99.5% DNA समानता होने के बावजूद, लाखों बेस पेयर में अंतर मौजूद हैं।
  - इस प्रयोग ने पुनःनिर्मित जानवरों को डायर वुल्फ के रूप में वर्गीकृत किया है, जो मॉर्फोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट (morphological species concept) पर आधारित है, जो कसटीक आनुवंशिक या विकासवादी वंशावली पर नहीं, बल्कि शारीरिक समानता पर आधारित था।

## डायर वुल्फ

- ये विशाल प्रागैतिहासिक कुत्तेनुमा जीव थे, जो लगभग 13,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गये थे।
- दक्षिणी कनाडा और अमेरिका के मूल निवासी ये जानवर आधुनिक ग्रे वुल्फ से बड़े होते थे, इनकी ऊँचाई लगभग 3.5 फीट, लंबाई 6 फीट से अधिक और वजन लगभग 68 किलोग्राम तक होता था, और संभवतः इनका कोट सफेद रंग का होता था।
- ये बाइसन और घोड़ों जैसे बड़े जानवरों का शिकार करते थे, ऐसा माना जाता है कि इनके विलुप्त होने का कारण शिकार की कमी और मानवीय हस्तक्षेप था।

और पढ़ें... [भारतीय ग्रे वुल्फ](#)